

SHARDA MOTOR INDUSTRIES LIMITED
CIN: L74899DL1986PLC023202
REGD. OFFICE: D-18, OKHLA INDUSTRIAL AREA, PHASE-I, NEW DELHI-110020
Tel.: +91-11-47334100, Fax: +91-11-26811676
E-Mail: investorrelations@shardamotor.com, Website: www.shardamotor.com

NOTICE

Pursuant to SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and other applicable provisions, if any, Notice is hereby given that next Board Meeting of the Company is scheduled to be held on Wednesday, August 10, 2022, inter-alia, to consider and approve the Un-audited Financial Results (Standalone & Consolidated) of the Company for the first quarter ended June 30, 2022.

The said notice is also available on the Company's website www.shardamotor.com and may also be accessed on the website of the stock exchanges i.e. www.bseindia.com and www.nseindia.com

For Sharda Motor Industries Limited
Sd/-
Nitin Vishnoi
Executive Director & Company Secretary

Date: August 03, 2022
Place: New Delhi

Canara Bank
(A Govt. of India Undertaking)
BRANCH OFFICE : SIRSA-II

NOTICE

The District MAGISTRATE Sirsa has appointed the undersigned has Duty. Magistrate vide its order Endst. No. 1590-92/PESHI Dated 26-04-2022 given U/S 14 SARFAESI ACT 2002 FOR TAKING POSSESSION OF SECURED ASSETS MORTGAGED IN NON PERFORMING LOAN ACCOUNT OF M/s HANS INDUSTRIES & others from Canara Bank Sirsa (HR) as per details given below:-

DETAILS OF PROPERTY : Part and parcel of the property land and building measuring 12 Marla 06 Sarsai (380 sq. yards) being 114/3339 share of 18 kanal 11 Marla comprised in Khawat No. 1603 (18-11) situated near Dhalwal Restaurant Opp. SMB Petrol Pump, Begu Road, with in the revenue estate of Shahpur Begu, Tehsil & Distt. Sirsa in the name of Sonu S/o Shri Hans Raj & Rajni W/o Shri Sonu. Bounded as under:- East:- Jayadard Raj Singh, West:- Begu Road, North:- Bakaya Jayadard, South:- Plot. Through this notice I call upon borrowers/ Guarantors to peacefully hand- over possession of the assets mortgaged for securing loan (s) as detailed above within 15 days from the date of publication of this notice. Failing which physical possession shall be taken by use of such force as may be required thereafter on any working day without any further notice.

Dated : 03.08.2022 Duty Magistrate

KRBL Limited
CIN: L01111DL1993PLC052845
Regd. Office: 5190, Lahori Gate, Delhi - 110006
Phone: 011-23968328, Fax: 011-23968327
Email: investor@krblindia.com; Website: www.krblrice.com

PUBLIC NOTICE FOR THE ATTENTION TO ALL EQUITY SHAREHOLDERS OF KRBL LIMITED

FOR TRANSFER OF UNPAID DIVIDEND IN RESPECT OF FY 2014-15 AND THE UNDERLYING EQUITY SHARES ON WHICH DIVIDEND IS UNPAID / UNCLAIMED FOR SEVEN CONSECUTIVE YEARS BEGINNING FY 2014-15 TO INVESTOR EDUCATION AND PROTECTION FUND (IEPF) SUSPENSE ACCOUNT

Dear Shareholder,

In pursuance to the provisions of Section 124 of the Companies Act, 2013 ("the Act"), read with IEPF Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 ("the rules"), as amended / modified from time to time, every company is required to mandatorily transfer to the IEPF, the money in the Unpaid Dividend Account of a company which remains unpaid or unclaimed for a period of 7 (seven) years from the date it was transferred to such account.

By this notice we wish to apprise that pursuant to the said provisions, the dividend declared by the Company on 28 September 2015, for the financial year 2014-15, which remained unclaimed / unpaid for a period of seven years will be credited to the IEPF on 05 November 2022. Accordingly, concerned shareholders are requested to kindly take note and claim the unpaid dividend. The required communication in this behalf has already been made by the company by way of sending letters to the concerned shareholders.

By this Notice, we also draw special attention of those Shareholders whose dividend is unpaid or unclaimed for 7 (seven) consecutive years beginning financial year 2014-15 onwards. Kindly note that the underlying shares on which dividend was unclaimed / unpaid for seven consecutive years will also be transferred as per the procedure set out in the rules. Once these Shares are transferred to the IEPF, all voting rights shall be frozen and all benefits accruing on those shares e.g. dividend, bonus shares, split, consolidation etc. will be lost, as these shall also be transferred to the IEPF.

The complete list of such shareholders, who have not encashed their dividends for seven consecutive years (till now) and whose shares are liable to be transferred to the IEPF Suspense Account, is displayed on the website of the Company at www.krblrice.com under the link investor relations. The required communication in this behalf has already been made by the company by way of sending letters to the concerned shareholders whose shares are liable to be transferred to the IEPF Suspense Account, for taking appropriate action to claim the shares before their credit to IEPF Suspense Account.

Concerned Shareholders, holding shares in physical form and whose shares are liable to be transferred to IEPF Suspense Account may note that the Company would be issuing duplicate share certificate(s) in lieu of original held by them for the purpose of transfer of shares to IEPF Suspense Account and upon such issue, the Company shall inform the depository by way of corporate action to convert the duplicate share certificates into DEMAT form and transfer in favour of IEPF. The original share certificate(s) which are registered in the name of original shareholders will stand automatically cancelled and be deemed to be non-negotiable.

Concerned shareholders holding shares in dematerialized form may note that the Company shall inform the depository by way of corporate action for transfer of shares to the Demat account of the IEPF.

Shareholders may note that both unclaimed dividend and shares once transferred to the IEPF authority can be claimed back from the IEPF authority after following the procedures prescribed under the IEPF Rules (refer the IEPF website <http://www.iefp.gov.in>).

In case, the Company does not receive any communication from the concerned shareholders by 30 September 2022, thereafter it will be inconvenient for the Company to process your request and the Company with a view to complying with the requirement set out in the rules, dematerialize and transfer the shares to IEPF Authority.

For any information / clarifications on this matter concerned shareholders may write to the Company at investor@krblindia.com or contact the Company's Registrar and Share Transfer Agent - Alankit Assignments Limited, 4E/2, Jhandewalan Extension, New Delhi-110055 Tel: 011-42541234 and email id: ramap@alankit.com.

For KRBL Limited
Sd/-
Raman Sapra
Company Secretary

Place: Noida, Uttar Pradesh
Date: 03 August 2022

Public Notice for Appointment of Nominee Directors in Light Microfinance Private Limited
[HAVING CIN- U67120DL1994PTC216764]

Background: M/s Light Microfinance Private Limited ("The Company") is a private limited Company incorporated under the provisions of the Companies Act, 1956, and registered with Reserve Bank of India ("RBI") under section 45 IA of the Reserve Bank of India Act, 1934, as Non-Deposit taking Non-Banking Financial Company-Microfinance Institute (NSFC-MFI) by virtue of certificate of registration bearing reference no. B-14 03244 dated 27th May 2014. The Company's registered office is located at 308, Aggarwal Tower, Plot no.-2, Sector-5, Dwarka, New Delhi- 110075 and corporate office is located at 310, Pinnacle Business Park, Corporate Road, Prahladnagar, Ahmedabad-380015.

Proposed Transaction: The Company proposes to appoint Nominee Directors of the existing Compulsorily Convertible Preference Shares [Series A&A1] holders in Light Microfinance Private Limited as per the names mentioned below.

Sr. no.	CCPS holder name	Proposed Nominee Director Name
1	NMI Fund IV KS	Mr. Thomas Klungsayr
2	agRIF Cooperatief U.A.	Mr. Aditya Bhandari

This public notice is intended to provide notice to the public regarding the proposed changes in the Board of the Company as per RBI approval letter dated 22nd July 2022. Any clarifications and/or objections in this regard may be addressed to the Company at its corporate office or on Compliance@lightmicrofinance.com within 30 days from the date of this notice.

Date: 02.08.2022 Sd/-
Place : Delhi Light Microfinance Private Limited

Canara Bank
(A Govt. of India Undertaking)
BRANCH OFFICE : SIRSA-II

NOTICE

The District MAGISTRATE Sirsa has appointed the undersigned has Duty. Magistrate vide its order Endst. No. 1406-08/PESHI Dated 15-04-2022 given U / S 14 SARFAESI ACT 2002 FOR TAKING POSSESSION OF SECURED ASSETS MORTGAGED IN NON PERFORMING LOAN ACCOUNT OF M/s Sonu & Co. from Canara Bank Sirsa (HR) as per details given below:-

DETAILS OF PROPERTY : Part and parcel of the property land and building measuring 12 Marla 06 Sarsai (380 Sq. Yds) being 114/3339 share of 18 Kanal 11 Marla comprised in Khawat No. 1603 (18-11) situated near Dhalwal Restaurant Opp. SMB Petrol Pump, Begu Road, with in the revenue estate of Shahpur Begu, Tehsil & Distt. Sirsa in the name of Shri Sonu S/o Shri Hans Raj and Smt. Rajni W/o Shri Sonu. Through this notice I call upon borrowers/ Guarantors to peacefully hand- over possession of the assets mortgaged for securing loan (s) as detailed above within 15 days from the date of publication of this notice. Failing which physical possession shall be taken by use of such force as may be required thereafter on any working day without any further notice.

Dated : 03.08.2022 Duty Magistrate

JINDAL STAINLESS LIMITED
(CIN: L26922HR1980PLC010901)
Regd. Office: O.P. Jindal Marg, Hisar - 125 005 (Haryana), India
Phone No. (01662) 222471-43, Fax No. (01662) 220499
Email id: investor@jindalstainless.com Website: www.jindalstainless.com
Corporate Office: Jindal Centre, 12, Bhikaji Cama Place, New Delhi - 110 066
Phone No.: (011) 26188345-60, 41462000, Fax No. (011) 41659169, 26101562

POSTAL BALLOT NOTICE

The members of Jindal Stainless Limited ("the Company") are hereby informed that pursuant to Section 110 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 and Rule 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI LODR") read with the General Circular No. 14/2020 dated April 8, 2020, General Circular No. 17/2020 dated April 13, 2020, General Circular No.22/2020 dated June 15, 2020, General Circular No. 33/2020 dated September 28, 2020, General Circular No. 39/2020 dated December 31, 2020, General Circular No. 10/2021 dated June 23, 2021, General Circular No. 20/2021 dated December 8, 2021 and General Circular No. 3/2022 dated May 5, 2022 issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") (hereinafter collectively referred to as "MCA Circulars"), the Company has completed the dispatch of Postal Ballot Notice alongwith explanatory statement ("Notice") on August 3, 2022 for seeking their consent in relation to the special business(s) as set out in the Postal Ballot Notice dated August 2, 2022.

In terms of the MCA Circulars, the Postal Ballot Notice has been sent on August 3, 2022 only by email to the Members / beneficiaries whose email addresses are registered with the Company/ Depository participants and whose name appear in the Register of Members / Beneficial Owners as on Friday, July 22, 2022 ("Cut-off date").

Members holding equity shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date i.e. July 22, 2022, may cast their vote electronically on the special business(s) as set out in the Postal Ballot Notice through remote e-voting facility of Link Intime India Private Limited ("Link Intime"). All members are informed that:

- The Special Business(s) as set out in the Postal Ballot Notice may be transacted through voting by electronic means;
- The remote e-voting shall commence on August 4, 2022 at 9:00 A.M. (IST);
- The remote e-voting shall end on September 2, 2022 at 5:00 P.M. (IST);
- The remote e-voting facility will be disabled by Link Intime after the aforesaid date and time. Remote e-voting shall not be allowed beyond the said date and time and once the vote on a resolution is cast by the Member, the Member shall not be allowed to change it subsequently;
- The cut-off date for determining the eligibility to vote through remote e-voting is July 22, 2022;
- A person whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories, as on the cut-off date i.e. July 22, 2022 only, shall be entitled to avail the facility of remote e-voting;
- The Members whose email ID is not registered with the Company / Depositories and who wish to receive the Postal Ballot Notice and all other communication sent by the Company, from time to time through email can now register for the same by submitting a request letter mentioning their folio number, complete address, email address to be registered along with scanned self-attested copy of the PAN Card/ Aadhar Card supporting the registered address of the Member, by email to the Company / Registrar, on or before August 26, 2022. Members holding shares in demat form are requested to register their email addresses with their Depository Participant(s) only.
- In case of any queries or grievance pertaining to E-voting, the members may refer to the help section at <https://instavote.linkintime.co.in> or contact Mr. Swapan Kumar Naskar, Associate Vice President & Head (North India), Link Intime India Private Limited, Noble Heights, 1st Floor, Plot No. NH-2, LSC, C-1 Block, Near Savitri Market, Janakpuri, New Delhi-110058 at contact no. (011) 49411000 (Email swapan@linkintime.co.in) or contact the Company.
- Postal Ballot Notice is also available on the Company's website www.jindalstainless.com, Link Intime's website <https://instavote.linkintime.co.in>, and website of the Stock Exchanges where the shares of the Company are listed at www.nseindia.com and www.bseindia.com.
- Mr. Sandeep Garg, Advocate, has been appointed as the Scrutinizer to scrutinize the e-voting process in a fair and transparent manner.

The result of Postal Ballot will be declared on September 3, 2022 at Registered Office of the Company. The results of the Postal Ballot along with the scrutinizer report shall be placed on the Company's website www.jindalstainless.com Link Intime's website <https://instavote.linkintime.co.in> and website of the Stock Exchanges where the shares of the Company are listed at www.nseindia.com and www.bseindia.com.

For Jindal Stainless Limited
(Navneet Raghuvanshi)
Head Legal & Company Secretary

Place: New Delhi
Date: August 3, 2022

Circle SASTRA, Mumbai Western
2nd Floor, Aman Chambers, Veer Savarkar Marg, Prabhadevi, Mumbai - 400 025
Email: cs4444@pnb.co.in Ph. No. 022-4334630, 43434663

SALE NOTICE FOR SALE OF SECURED ASSETS UNDER SARFAESI ACT

E-Auction Sale Notice for Sale of Secured Assets under the Securitisation & Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 read with provision to Rule 8(6) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002.

Notice is hereby given to the public in general and the Borrower(s) and Guarantor(s) and Mortgagee(s) in particular that the below described immovable / movable property mortgaged / charged to the Secured Creditor Banks namely Punjab National Bank; erstwhile United Bank of India and erstwhile Oriental Bank of Commerce and the constructive/physical/symbolic possession of which has been taken by the Authorised Officer of the respective secured creditor Banks, will be sold on "As is where is", "As is what is", and "Whatever there is" basis on the date as mentioned in the table herein below, for recovery of its dues due to these above named secured creditor banks from the respective Borrower(s), Mortgagee(s) and Guarantor(s). The Reserve price and the earnest money deposit is mentioned in the table below against the respective properties.

Sr. No.	Name of the Branch Name of the Account	Description of the Immovable Properties Mortgaged	A) Date of Demand Notice u/s 13(2) of SARFAESI ACT 2002	B) Outstanding Amount as on NPA date	C) Possession Date u/s 13(2) of SARFAESI ACT 2002	D) Nature of Possession Symbolic/Physical/Constructive	A) Reserve Price (Rs. in Lacs)	B) EMD to be deposited MISC waiver before Auction Date	C) Bid Increase Amount	Date / Time of E-Auction	Details of the encumbrances known to the secured creditors	Name & No. of the contact person
1	CIRCLE SASTRA MUMBAI WESTERN M/s Edit Guru, Modi House, 1st Floor, Opp. Fun Republic Cinema, Andheri Link Road, Andheri West, Mumbai-400053. Mr Satyajeet A Sachdeva (Partner), Mr Akshayjeet A. Sachdeva (Partner), Miss Mininalini Sachdeva (Partner), Mrs Kunta Sachdeva (Guarantor & Mortgagee), 42, Siddharth Enclave, Jangpura New Delhi -110014	2nd and 3rd Floor Duplex Flat SFS Flat, No. 42, Siddharth Enclave, Ashram Chowk, New Delhi-110014. Rampasur area Flat Area 1657.65 sq.ft. in the name of Smt Kunta Sachdeva.	A/01.06.2019 B/1,67,451.43 plus further interest and charges since date of NPA. C/26.02.2020 D)Symbolic. (Order for physical possession received)	A/Rs 2,03,00,000/- B/Rs 20,30,000/- C/Rs 50,000/-	22.08.2022	Unpaid Society Maintenance charges and Municipal Taxes etc. Any other encumbrance Not Known	Authorised Officer Mobile 9723930002 7060174407 8976973349					

TERMS AND CONDITIONS OF E-AUCTION SALE

The sale shall be subject to the Terms & Conditions prescribed in the Security Interest (Enforcement) Rules 2002 and to the following further conditions:

- The properties are being sold on "AS IS WHERE IS BASIS" and "AS IS WHAT IS BASIS" and "WHATEVER THERE IS BASIS".
- The particulars of Secured Assets specified in the Schedule hereinabove have been stated to the best of the information of the Authorised Officer, but the Authorised Officer shall not be answerable for any error, misstatement or omission in this proclamation.
- The Sale will be done by the undersigned through e-auction platform provided at the Website <https://www.msccommerce.com> on 22-08-2022 starting from 11.00 AM to 5:00 PM.
- For detailed term and conditions of the sale, please refer www.msccommerce.com

Sd/-
Authorised Officer,
Punjab National Bank
Secured Creditor

Date: 04-08-2022
Place: New Delhi

Public Notice for Appointment of Nominee Directors in Light Microfinance Private Limited
[HAVING CIN- U67120DL1994PTC216764]

Background: M/s Light Microfinance Private Limited ("The Company") is a private limited Company incorporated under the provisions of the Companies Act, 1956, and registered with Reserve Bank of India ("RBI") under section 45 IA of the Reserve Bank of India Act, 1934, as Non-Deposit taking Non-Banking Financial Company-Microfinance Institute (NSFC-MFI) by virtue of certificate of registration bearing reference no. B-14 03244 dated 27th May 2014. The Company's registered office is located at 308, Aggarwal Tower, Plot no.-2, Sector-5, Dwarka, New Delhi- 110075 and corporate office is located at 310, Pinnacle Business Park, Corporate Road, Prahladnagar, Ahmedabad-380015.

Proposed Transaction: The Company proposes to appoint Nominee Directors of the existing Compulsorily Convertible Preference Shares [Series A&A1] holders in Light Microfinance Private Limited as per the names mentioned below.

Sr. no.	CCPS holder name	Proposed Nominee Director Name
1	NMI Fund IV KS	Mr. Thomas Klungsayr
2	agRIF Cooperatief U.A.	Mr. Aditya Bhandari

This public notice is intended to provide notice to the public regarding the proposed changes in the Board of the Company as per RBI approval letter dated 22nd July 2022. Any clarifications and/or objections in this regard may be addressed to the Company at its corporate office or on Compliance@lightmicrofinance.com within 30 days from the date of this notice.

Date: 02.08.2022 Sd/-
Place : Delhi Light Microfinance Private Limited

Canara Bank
(A Govt. of India Undertaking)
BRANCH OFFICE : SIRSA-II

NOTICE

The District MAGISTRATE Sirsa has appointed the undersigned has Duty. Magistrate vide its order Endst. No. 1406-08/PESHI Dated 15-04-2022 given U / S 14 SARFAESI ACT 2002 FOR TAKING POSSESSION OF SECURED ASSETS MORTGAGED IN NON PERFORMING LOAN ACCOUNT OF M/s Sonu & Co. from Canara Bank Sirsa (HR) as per details given below:-

DETAILS OF PROPERTY : Part and parcel of the property land and building measuring 12 Marla 06 Sarsai (380 Sq. Yds) being 114/3339 share of 18 Kanal 11 Marla comprised in Khawat No. 1603 (18-11) situated near Dhalwal Restaurant Opp. SMB Petrol Pump, Begu Road, with in the revenue estate of Shahpur Begu, Tehsil & Distt. Sirsa in the name of Shri Sonu S/o Shri Hans Raj and Smt. Rajni W/o Shri Sonu. Through this notice I call upon borrowers/ Guarantors to peacefully hand- over possession of the assets mortgaged for securing loan (s) as detailed above within 15 days from the date of publication of this notice. Failing which physical possession shall be taken by use of such force as may be required thereafter on any working day without any further notice.

Dated : 03.08.2022 Duty Magistrate

Canara Bank
(A Govt. of India Undertaking)
BRANCH OFFICE : SIRSA-II

NOTICE

The District MAGISTRATE Sirsa has appointed the undersigned has Duty. Magistrate vide its order Endst. No. 1406-08/PESHI Dated 15-04-2022 given U / S 14 SARFAESI ACT 2002 FOR TAKING POSSESSION OF SECURED ASSETS MORTGAGED IN NON PERFORMING LOAN ACCOUNT OF M/s Sonu & Co. from Canara Bank Sirsa (HR) as per details given below:-

DETAILS OF PROPERTY : Part and parcel of the property land and building measuring 12 Marla 06 Sarsai (380 Sq. Yds) being 114/3339 share of 18 Kanal 11 Marla comprised in Khawat No. 1603 (18-11) situated near Dhalwal Restaurant Opp. SMB Petrol Pump, Begu Road, with in the revenue estate of Shahpur Begu, Tehsil & Distt. Sirsa in the name of Shri Sonu S/o Shri Hans Raj and Smt. Rajni W/o Shri Sonu. Through this notice I call upon borrowers/ Guarantors to peacefully hand- over possession of the assets mortgaged for securing loan (s) as detailed above within 15 days from the date of publication of this notice. Failing which physical possession shall be taken by use of such force as may be required thereafter on any working day without any further notice.

Dated : 03.08.2022 Duty Magistrate

JINDAL STAINLESS LIMITED
(CIN: L26922HR1980PLC010901)
Regd. Office: O.P. Jindal Marg, Hisar - 125 005 (Haryana), India
Phone No. (01662) 222471-43, Fax No. (01662) 220499
Email id: investor@jindalstainless.com Website: www.jindalstainless.com
Corporate Office: Jindal Centre, 12, Bhikaji Cama Place, New Delhi - 110 066
Phone No.: (011) 26188345-60, 41462000, Fax No. (011) 41659169, 26101562

POSTAL BALLOT NOTICE

The members of Jindal Stainless Limited ("the Company") are hereby informed that pursuant to Section 110 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 and Rule 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI LODR") read with the General Circular No. 14/2020 dated April 8, 2020, General Circular No. 17/2020 dated April 13, 2020, General Circular No.22/2020 dated June 15, 2020, General Circular No. 33/2020 dated September 28, 2020, General Circular No. 39/2020 dated December 31, 2020, General Circular No. 10/2021 dated June 23, 2021, General Circular No. 20/2021 dated December 8, 2021 and General Circular No. 3/2022 dated May 5, 2022 issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") (hereinafter collectively referred to as "MCA Circulars"), the Company has completed the dispatch of Postal Ballot Notice alongwith explanatory statement ("Notice") on August 3, 2022 for seeking their consent in relation to the special business(s) as set out in the Postal Ballot Notice dated August 2, 2022.

In terms of the MCA Circulars, the Postal Ballot Notice has been sent on August 3, 2022 only by email to the Members / beneficiaries whose email addresses are registered with the Company/ Depository participants and whose name appear in the Register of Members / Beneficial Owners as on Friday, July 22, 2022 ("Cut-off date").

Members holding equity shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date i.e. July 22, 2022, may cast their vote electronically on the special business(s) as set out in the Postal Ballot Notice through remote e-voting facility of Link Intime India Private Limited ("Link Intime"). All members are informed that:

- The Special Business(s) as set out in the Postal Ballot Notice may be transacted through voting by electronic means;
- The remote e-voting shall commence on August 4, 2022 at 9:00 A.M. (IST);
- The remote e-voting shall end on September 2, 2022 at 5:00 P.M. (IST);
- The remote e-voting facility will be disabled by Link Intime after the aforesaid date and time. Remote e-voting shall not be allowed beyond the said date and time and once the vote on a resolution is cast by the Member, the Member shall not be allowed to change it subsequently;
- The cut-off date for determining the eligibility to vote through remote e-voting is July 22, 2022;
- A person whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories, as on the cut-off date i.e. July 22, 2022 only, shall be entitled to avail the facility of remote e-voting;
- The Members whose email ID is not registered with the Company / Depositories and who wish to receive the Postal Ballot Notice and all other communication sent by the Company, from time to time through email can now register for the same by submitting a request letter mentioning their folio number, complete address, email address to be registered along with scanned self-attested copy of the PAN Card/ Aadhar Card supporting the registered address of the Member, by email to the Company / Registrar, on or before August 26, 2022. Members holding shares in demat form are requested to register their email addresses with their Depository Participant(s) only.
- In case of any queries or grievance pertaining to E-voting, the members may refer to the help section at <https://instavote.linkintime.co.in> or contact Mr. Swapan Kumar Naskar, Associate Vice President & Head (North India), Link Intime India Private Limited, Noble Heights, 1st Floor, Plot No. NH-2, LSC, C-1 Block, Near Savitri Market, Janakpuri, New Delhi-110058 at contact no. (011) 49411000 (Email swapan@linkintime.co.in) or contact the Company.
- Postal Ballot Notice is also available on the Company's website www.jindalstainless.com, Link Intime's website <https://instavote.linkintime.co.in>, and website of the Stock Exchanges where the shares of the Company are listed at www.nseindia.com and www.bseindia.com.
- Mr. Sandeep Garg, Advocate, has been appointed as the Scrutinizer to scrutinize the e-voting process in a fair and transparent manner.

The result of Postal Ballot will be declared on September 3, 2022 at Registered Office of the Company. The results of the Postal Ballot along with the scrutinizer report shall be placed on the Company's website www.jindalstainless.com Link Intime's website <https://instavote.linkintime.co.in> and website of the Stock Exchanges where the shares of the Company are listed at www.nseindia.com and www.bseindia.com.

For Jindal Stainless Limited
(Navneet Raghuvanshi)
Head Legal & Company Secretary

Place: New Delhi
Date: August 3, 2022

Canara Bank
(A Govt. of India Undertaking)
BRANCH OFFICE : SIRSA-II

NOTICE

The District MAGISTRATE Sirsa has appointed the undersigned has Duty. Magistrate vide its order Endst. No. 1406-08/PESHI Dated 15-04-2022 given U / S 14 SARFAESI ACT 2002 FOR TAKING POSSESSION OF SECURED ASSETS MORTGAGED IN NON PERFORMING LOAN ACCOUNT OF M/s Sonu & Co. from Canara Bank Sirsa (HR) as per details given below:-

DETAILS OF PROPERTY : Part and parcel of the property land and building measuring 12 Marla 06 Sarsai (380 Sq. Yds) being 114/3339 share of 18 Kanal 11 Marla comprised in Khawat No. 1603 (18-11) situated near Dhalwal Restaurant Opp. SMB Petrol Pump, Begu Road, with in the revenue estate of Shahpur Begu, Tehsil & Distt. Sirsa in the name of Shri Sonu S/o Shri Hans Raj and Smt. Rajni W/o Shri Sonu. Through this notice I call upon borrowers/ Guarantors to peacefully hand- over possession of the assets mortgaged for securing loan (s) as detailed above within 15 days from the date of publication of this notice. Failing which physical possession shall be taken by use of such force as may be required thereafter on any working day without any further notice.

Dated : 03.08.2022 Duty Magistrate

JINDAL STAINLESS LIMITED
(CIN: L26922HR1980PLC010901)
Regd. Office: O.P. Jindal Marg, Hisar - 125 005 (Haryana), India
Phone No. (01662) 222471-43, Fax No. (01662) 220499
Email id: investor@jindalstainless.com Website: www.jindalstainless.com
Corporate Office: Jindal Centre, 12, Bhikaji Cama Place, New Delhi - 110 066
Phone No.: (011) 26188345-60, 41462000, Fax No. (011) 41659169, 26101562

POSTAL BALLOT NOTICE

The members of Jindal Stainless Limited ("the Company") are hereby informed that pursuant to Section 110 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 and Rule 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI LODR") read with the General Circular No. 14/2020 dated April 8, 2020, General Circular No. 17/2020 dated April 13, 2020, General Circular No.22/2020 dated June 15, 2020, General Circular No. 33/2020 dated September 28, 2020, General Circular No. 39/2020 dated December 31, 2020, General Circular No. 10/2021 dated June 23, 2021, General Circular No. 20/2021 dated December 8, 2021 and General Circular No. 3/2022 dated May 5, 2022 issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") (hereinafter collectively referred to as "MCA Circulars"), the Company has completed the dispatch of Postal Ballot Notice alongwith explanatory statement ("Notice") on August 3, 2022 for seeking their consent in relation to the special business(s) as set out in the Postal Ballot Notice dated August 2, 2022.

In terms of the MCA Circulars, the Postal Ballot Notice has been sent on August 3, 2022 only by email to the Members / beneficiaries whose email addresses are registered with the Company/ Depository participants and whose name appear in the Register of Members / Beneficial Owners as on Friday, July 22, 2022 ("Cut-off date").

Members holding equity shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date i.e. July 22, 2022, may cast their vote electronically on the special business(s) as set out in the Postal Ballot Notice through remote e-voting facility of Link Intime India Private Limited ("Link Intime"). All members are informed that:

- The Special Business(s) as set out in the Postal Ballot Notice may be transacted through voting by electronic means;
- The remote e-voting shall commence on August 4, 2022 at 9:00 A.M. (IST);
- The remote e-voting shall end on September 2, 2022 at 5:00 P.M. (IST);
- The remote e-voting facility will be disabled by Link Intime after the aforesaid date and time. Remote e-voting shall not be allowed beyond the said date and time and once the vote on a resolution is cast by the Member, the Member shall not be allowed to change it subsequently;
- The cut-off date for determining the eligibility to vote through remote e-voting is July 22, 2022;
- A person whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories, as on the cut-off date i.e. July 22, 2022 only, shall be entitled to avail the facility of remote e-voting;
- The Members whose email ID is not registered with the Company / Depositories and who wish to receive the Postal Ballot Notice and all other communication sent by the Company, from time to time through email can now register for the same by submitting a request letter mentioning their folio number, complete address, email address to be registered along with scanned self-attested copy of the PAN Card/ Aadhar Card supporting the registered address of the Member, by email to the Company / Registrar, on or before August 26, 2022. Members holding shares in demat form are requested to register their email addresses with their Depository Participant(s) only.
- In case of any queries or grievance pertaining to E-voting, the members may refer to the help section at <https://instavote.linkintime.co.in> or contact Mr. Swapan Kumar Naskar, Associate Vice President & Head (North India), Link Intime India Private Limited, Noble Heights, 1st Floor, Plot No. NH-2, LSC, C-1 Block, Near Savitri Market, Janakpuri, New Delhi-110058 at contact no. (011) 49411000 (Email swapan@linkintime.co.in) or contact the Company.
- Postal Ballot Notice is also available on the Company's website www.jindalstainless.com, Link Intime's website <https://instavote.linkintime.co.in>, and website of the Stock Exchanges where the shares of the Company are listed at www.nseindia.com and www.bseindia.com.
- Mr. Sandeep Garg, Advocate, has been appointed as the Scrutinizer to scrutinize the e-voting process in a fair and transparent manner.

The result of Postal Ballot will be declared on September 3, 2022 at Registered Office of the Company. The results of the Postal Ballot along with the scrutinizer report shall be placed on the Company's website www.jindalstainless.com Link Intime's website <https://instavote.linkintime.co.in> and website of the Stock Exchanges where the shares of the Company are listed at www.nseindia.com and www.bseindia.com.

For Jindal Stainless Limited
(Navneet Raghuvanshi)
Head Legal & Company Secretary

Place: New Delhi
Date: August 3, 2022

Canara Bank
(A Govt. of India Undertaking)
BRANCH OFFICE : SIRSA-II

NOTICE

The District MAGISTRATE Sirsa has appointed the undersigned has Duty. Magistrate vide its order Endst. No. 1406-08/PESHI Dated 15-04-2022 given U / S 14 SARFAESI ACT 2002 FOR TAKING POSSESSION OF SECURED ASSETS MORTGAGED IN NON PERFORMING LOAN ACCOUNT OF M/s Sonu & Co. from Canara Bank Sirsa (HR) as per details given below:-

DETAILS OF PROPERTY : Part and parcel of the property land and building measuring 12 Marla 06 Sarsai (380 Sq. Yds) being 114/3339 share of 18 Kanal 11 Marla comprised in Khawat No. 1603 (18-11) situated near Dhalwal Restaurant Opp. SMB Petrol Pump, Begu Road, with in the revenue estate of Shahpur Begu, Tehsil & Distt. Sirsa in the name of Shri Sonu S/o Shri Hans Raj and Smt. Rajni W/o Shri Sonu. Through this notice I call upon borrowers/ Guarantors to peacefully hand- over possession of the assets mortgaged for securing loan (s) as detailed above within 15 days from the date of publication of this notice. Failing which physical possession shall be taken by use of such force as may be required thereafter on any working day without

उत्तर रेलवे

निविदा सूचना

भारत के राष्ट्रपति के लिए और उनकी ओर से मुख्य प्रशासनिक अधिकारी / निर्माण, उत्तर रेलवे, कम्पनी गेट, दिल्ली-6 निम्नलिखित कार्य के लिए दो पकेट प्रणाली के अंतर्गत ई-निविदा आभंत्रित करते हैं:-

कार्य का नाम एवं स्थान	उत्तर रेलवे पर लखनऊ मण्डल के जौनपुर — अकबरपुर के प्रस्तावित दोहरीकरण के सम्बन्ध में शाहजग और जौनपुर में बकाया सिविल कार्य अर्थात् भराव में जमीनी कार्य, प्लेटफार्म की दीवार, प्लेटफार्म का विस्तार, सहल आदि जैसे प्लेटफार्म सम्बन्धित कार्य, भवन कार्य, पक्षिखंड का विकास, शाहजग पर समपार फाटकों का उन्मूलन (अप्रोपेडेशन) और खराबइच्छ सहल, बाहरदीवारी, माला प्लेटफार्म तथा जौनपुर अकबरपुर को (छोड़कर) के बीच अन्य सम्बन्धित कार्य करने के सम्बन्ध में।
------------------------	--

अनुमानित /निदेशात्मक परिचयनामा लागत	रुपये 2799.68 लाख
-------------------------------------	-------------------

कार्य पूरा करने की अवधि	18 माह
-------------------------	--------

जमा की जाने वाली जमानगी राशि	रुपये 15,49,800.00
------------------------------	--------------------

विरस्तु ई-निविदा सूचना तथा निविदा दस्तावेज	उपयुक्त निविदा दस्तावेज आईआरडीपीएस की वेबसाइट www.ireps.gov.in पर 05.08.2022 से 29.08.2022 तक उपलब्ध होगी।
--	--

ई-निविदा प्रस्तुत करने और निविदा खुलने की तिथि और समय	निविदा 11.30 बजे दिनांक 15.08.2022 से 29.08.2022 तक आईआरडीपीएस की वेबसाइट www.ireps.gov.in पर अपलोड की जा सकती है तथा उसके बाद केवल तकनीकी सह वाणिज्यिक बिडो को 11.30 बजे दिनांक 29.08.2022 को खोला जाएगा।
---	--

निविदा खुलने की तिथि और समय	29.08.2022 को 11.30 बजे खोली जाएगी। पात्र निविदाकर्ताओं की वित्तीय बोली तदनुसार खोली जायेगी जिसकी समय और तिथि की सूचना बाद में दी जायेगी।
-----------------------------	---

संख्या 74-डब्ल्यू/3/2/459/डब्ल्यू.ए./लखनऊ दिनांक : 03.08.2022	1989/2022
---	-----------

आहर्कों की सेवा में नुस्खाल के साथ



INDIAN INSTITUTE OF MANAGEMENT LUCKNOW

NOIDA CAMPUS

B-1, Institutional Area, Sector-62, NOIDA - 201307

VACANCY

Indian Institute of Management Lucknow Noida Campus invites applications from eligible and experienced candidates for the post of **MANAGER** (on contract).

The duties to be undertaken by the selected person are Corporate Relations, Market Development Strategy, Relationship Management, Team Management & Administrative Operations.

For details, please visit Institute's website www.iiml.ac.in

Criminal Courts, Ludhiana

In The Court Of Ms. Divya Sharma JMC

Ludhiana Date: 07-09-2022

next date, purpose of case, orders and judgments as well as other case information is available on <http://indiastricks.accounts.gov.in/ludhiana>

CNR No: PBLD03-049129-2019

Kotak Mahindra Bank Limited

Vs

Manoj Kumar Savita

Publication Issued To: Manoj Kumar Savita

Address- R/o Laxmi Bai Nagar Purana

Bihroor Kanpur UP 208017

Whereas it has proved to the satisfaction of this court that the, the accused/accused persons can't be served in the ordinary way of service. Hence this proclamation under 82 of code of criminal procedure is hereby issued against you with a direction that you should appear personally before this court on 07-09-2022 at 10:00 a.m. or within 30 days from the date of publication of this proclamation. Take notice that, in case of default on your part to appear as directed above the above said case will be heard and determined as per law, in your absence. For details login to: https://highcourthd.gov.in/?n=distrcot_notice&id=india&ludhiana

JMC Ludhiana

भारतीय विमान सेवा एवं होम्योपैथी मेमोरियल अयोग

आयुष्य मंत्रालय, भारत सरकार

कमला नेहरू नगर, गाजियाबाद (उ.प्र.)

एन.सी.आर. दिल्ली-201002

Tel: (+91)1120-2787014, 2787016, 27851156

भारतीय चिकित्सा एवं होम्योपैथी मेमोरियल अयोग, आयुष्य मंत्रालय, गाजियाबाद मे राष्ट्रीय ओषधीय पादप बोर्ड द्वारा वित्त पोषित परियोजना के अंतर्गत सौविदा/रिजिस्ट्रार पर कुछ दस्तावेज को प्रत्यक्ष सांख्यिक के माध्यम से भर्ती करने का प्रस्ताव है। प्रत्यक्ष सांख्यिक 22/08/2022 प्राप्त: 11 बजे प्रस्तावित है। अधिक जानकारी हेतु आयोग की वेबसाइट www.pcmih.gov.in पर विज्गण को देखें। प्रभारी निदेशक

Criminal Courts, Ludhiana

In The Court Of Ms. Divya Sharma JMC

Ludhiana Date: 07-09-2022

next date, purpose of case, orders and judgments as well as other case information is available on <http://indiastricks.accounts.gov.in/ludhiana>

CNR No: PBLD03-049135-2019

Kotak Mahindra Bank Limited

Vs

Komal Chandra

Publication Issued To: Komal Chandra Wife Of Not Known Address- R/o Ratanspang

Mau Ama Allahabad UP 212507

Whereas it has proved to the satisfaction of this court that the, the accused/accused persons can't be served in the ordinary way of service. Hence this proclamation under 82 of code of criminal procedure is hereby issued against you with a direction that you should appear personally before this court on 07-09-2022 at 10:00 a.m. or within 30 days from the date of publication of this proclamation. Take notice that, in case of default on your part to appear as directed above the above said case will be heard and determined as per law, in your absence. For details login to: https://highcourthd.gov.in/?n=distrcot_notice&id=india&ludhiana

JMC Ludhiana

टिन्ना फाइनेक्स लिमिटेड

पंजी. कार्यालय सं. : 11 बडू विमान, डा एल्यू, बडू रोड, चण्दर हौला, नई दिल्ली-110078

CIN: L65910DL1990PLC041750

सूचना

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि टिन्ना फाइनेक्स लिमिटेड की 32वीं वार्षिक आम सभा सोमवार, 29 अगस्त, 2022 को 10.00 बजे पूर्वाह्न में 11 बडू विमान, 21वां एल्यू, चण्दर रोड, चण्दर हौला, नई दिल्ली-110078 में आयोजित की जाएगी जिसमें उनके पंजीकृत पते पर व्यक्तिगत रूप से सदस्यों को भेजी जा रही उक्त वार्षिक आम सभा की सूचना को उनके पंजीकृत पते पर व्यक्तिगत रूप से भेजी गई है, में वर्णित व्यवहारों को निमादित किया जाये।

उपर्युक्त होने तथा मतदान के लिये अधिकृत सदस्य अपनी जगह उपस्थित होने तथा मतदान के लिये प्रार्थना की निम्नलिखित कर सकते हैं तथा प्रार्थना का सदस्य होना जरूरी नहीं है।

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 के अनुपालन में एतद्वारा सूचित किया जाता है कि सदस्यों के रजिस्टर तथा कम्पनी की शेयर अंतरण पुस्तकें 20 अगस्त से 28 अगस्त, 2022 (दोनों दिवस सहित) तक बंद रहेंगी।

टिन्ना फाइनेक्स लिमिटेड हस्ता. विचार शेखरी निदेशक

स्थान: दिल्ली तिथि: 04 अगस्त, 2022

GLOBUS SPIRITS LIMITED

CIN : L74899DL1993PLC052177

Regd. Office:- F-4, Ground Floor, The Mira Corporate Suites, Plot No.182, Ishwar Nagar Mathura Road New Delhi-110065 Ph-011-66424601, Fax-011-66424629, Email:corporateoffice@globusgroup.in, Web:www.globusspirits.com

RESCHEDULING OF BOARD MEETING

In terms of the Clause 29(1) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, notice is hereby given that the next meeting of the Board of Directors of the Company has been rescheduled and will now be held on Tuesday, the 09th August 2022, inter-alia, (i) to consider and take on record the Un-audited financial results of the Company for the 1st Quarter ended on 30th June, 2022; (ii) to fix the date & venue for conducting the Annual General Meeting for the financial year 2021-22 & to fix the Book Closure date for the purpose of AGM.

The said notice is also available on the company's website www.globusspirits.com and also available on BSE & NSE website.

For Globus Spirits Limited Sd/- Santosh Kumar Pattanayak (Company Secretary)

Dated : 03rd August 2022

पंजाब नेशनल बैंक

... भरतेसे का प्रतीक ...

... the name you can BANK upon ...

एकीकृत जोखिम प्रबंधन प्रभाग

प्लॉट संख्या-4, सेक्टर-10, हारका, नई दिल्ली-110075

अभिरुचि की अभिव्यक्ति के लिए आमंत्रण

पंजाब नेशनल बैंक, प्रधान कार्यालय, नई दिल्ली "आंतरिक ऋण जोखिम रेटिंग मॉडल/स्कोरकार्ड के सत्यापन हेतु सलाहकारों के पैनल" के लिए अभिरुचि की अभिव्यक्ति (वित्तीय बोलियों के साथ) आमंत्रित करता है।

ईओआई का विवरण, बैंक की वेबसाइट <https://etender.pnbnet.in> एवं <https://www.pnbindia.in> पर उपलब्ध है।

ईओआई दस्तावेज में संशोधन सहित परिशिष्ट/शुद्धिपत्र, यदि कोई हो, बैंक की वेबसाइट <https://etender.pnbnet.in> एवं <https://www.pnbindia.in> पर आसिद्धित किया जाएगा।

बोली जमा करने की आरंभिक तिथि 20.08.2022 एवं बोली जमा करने की अंतिम तिथि 05.09.2022 को 16:00 बजे तक है।

स्थान : नई दिल्ली तिथि : 04.08.2022

सहायक महाप्रबंधक एकीकृत जोखिम प्रबंधन प्रभाग

GOGIA CAPITAL SERVICES LIMITED

CIN: L74899DL1994PLC059674

Regd. Office:- The Capital Court, 6th Floor, Olof Palme Marg, Munirka New Delhi-110067

Email:- compliance@gogiapcap.com, Website:- www.gogiapcap.com, Contact no: 011-49418888

Extract of Un-audited standalone financial results for the quarter ended on 30th June, 2022 (Figures in Lakhs)

S. NO	Particulars	30.06.2022 Quarter Unaudited	30.06.2021 Quarter Unaudited	31.03.2022 Quarter Audited	31.03.2021 Quarter Audited
1	Total Income from Operations	178.40	130.96	162.78	616.93
2	Net Profit/(Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	123.96	109.94	74.36	427.34
3	Net Profit/(Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	123.96	109.94	74.36	427.34
4	Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	93.96	79.94	46.72	309.70
5	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive income (after tax))	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Equity Share Capital	632.11	632.11	632.11	632.11
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year	0.00	0.00	3,987.43	3,987.43
8	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations) -	1.49	1.26	0.74	4.90
1	Basic:	1.49	1.26	0.74	4.90
2	Diluted:	1.49	1.26	0.74	4.90

Notes:-

1. The Company has investment in equity shares of the listed company of Rs. 16,67,33,948/- The market value of the investments as on 30.06.2022 is Rs. 101,57,16,996/- The unrealized gain of Rs. 84,89,83,048/- is not considered in the above accounts.

2. The Unaudited standalone Financial Results for the quarter ended on June 30, 2022 have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at its meeting held on August 3, 2022. The standalone Financial Results are prepared in accordance with the Indian Accounting Standards (Ind AS) as prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013.

3. The standalone financial results for the first quarter ended June 30, 2022 detailed financial results are available on the Company's website www.gogiapcap.com and have been submitted to the BSE Limited (www.bseindia.com), where the equity shares of the Company are listed.

For Gogia Capital Services Limited Sd/- Satish Gogia Managing Director

Place: Delhi Date: 03.08.2022

VINTRON INFORMATICS LIMITED

(Registered Office :- D-107 & 108, Okhla Industrial Area, Phase-I, New Delhi-110020)

Advertisement under Regulation 18(7) in terms of SEBI (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011.

This Advertisement is being issued by D & A Financial Services (P) Limited ("Manager to the Offer"), for and on behalf of the Acquirer(s) M/s Vistara Network (P) Limited and M/s Telexcell Enterprise LLP, pursuant to Regulation 18(7) of the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations 2011, in respect of the open offer to acquire shares of Vintron Informatics Limited ("VIL"/ "Target Company"). The Detailed Public Statement ("DPS") with respect to the aforementioned offer was published on Friday, 17th June, 2022, in Financial Express (English-All Editions), Jansatta (Hindi-All Editions), Lakshadweep (Marathi) Mumbai edition.

1. Offer Price is Rupees 1.25 (Rupees One and paisea Twenty Five Only) per equity share.

2. Committee of Independent Directors (Hereinafter referred to as "IDCs") of the Target Company recommends that the open offer price of Rupees 1.25 per fully paid up equity shares is fair and reasonable based on the following reasons:

a. Offer Price is higher than the price as arrived by taking into account valuation parameters and other parameters as are customary for valuation of shares of such companies, which comes to Rupees 1.15 per share.

The IDCs recommendation was published on 03rd August, 2022 (Wednesday) in the mass newspapers where Detailed Public Statement was published.

3. This Offer is not a Competing Offer.

4. The Letter of Offer dated 23rd July, 2022 has been dispatched to the shareholders on or before Friday, 29th July, 2022.

5. A Copy of the Letter of Offer (including Form of Acceptance cum acknowledgement) will also be available on SEBI's website (www.sebi.gov.in) during the offer period and shareholders can also apply by downloading such forms from the website. Further, in case of non-receipt/ non-availability of the form of acceptance, the application can be made on plain paper along with the following details:

Name(s) & Address(es) of Joint Holder(s) (if any), Number of Shares held, Number of Shares tendered, Distinctive Numbers, Folio Number, Original share Certificate(s) and duly signed share transfer form(s).

6. In terms of Regulation 16(1) of the SEBI (SAST) Regulations, 2011, the Draft Letter of Offer was submitted to SEBI on 21st June, 2022. All the observations made by SEBI vide letter no. SEBI/HO/CFD/RAC/DCR-1/P/OW/2022/29480/1 dated 20th July, 2022, has been incorporated in the Letter of Offer.

7. There have been no material changes in relation to the Open Offer since the date of the PA, save as otherwise disclosed in the DPS, Concomitant to DPS and the Letter of Offer except number of shares to be acquired pursuant to said offer should be read as 1,99,17,750 equity shares representing 25.42% instead of 2,03,72,508 equity shares representing 26%.

8. There is no statutory approvals required for the purpose of this open offer.

9. Schedule of Activities:

S. No Activity Original Schedule (Days & Dates) Revised Schedule (Days & Dates)

1. Date of Public Announcement Friday, June 10, 2022 Friday, June 10, 2022

2. Date of Publication of Detailed Public Statement Friday, June 17, 2022 Friday, June 17, 2022

3. Filing of the Draft letter of Offer to SEBI Friday, June 24, 2022 Friday, June 24, 2022

4. Last Date for a Competitive Offer(s) Friday, July 08, 2022 Friday, July 08, 2022

5. Identified Date* Tuesday, July 19, 2022 Friday, July 22, 2022

6. Date by which Final Letter of Offer will be dispatched to the shareholders Tuesday, July 26, 2022 Friday, July 29, 2022

7. Last Date for revising the Offer Price / number of shares. Thursday, July 28, 2022 Tuesday, August 02, 2022

8. Date by which the committee of the independent directors of the Target Company shall give its recommendations. Friday, July 29, 2022 Wednesday, August 03, 2022

9. Date of Publication of Offer Opening Public Announcement Monday, August 01, 2022 Thursday, August 04, 2022

10. Date of Commencement of Tendering Period (Offer Opening date) Tuesday, August 02, 2022 Friday, August 05, 2022

11. Date of Expiry of Tendering Period (Offer Closing date) Thursday, August 18, 2022 Tuesday, August 23, 2022

12. Last Date of communicating rejection / acceptance and payment of consideration for applications accepted / return of unaccepted share certificates / credit of unaccepted equity shares to demat account. Friday, September 02, 2022 Wednesday, September 07, 2022

*The Identified date is only for the purpose of determining the public shareholders as on such date to whom the Letter of Offer would be mailed. It is clarified that all the Public Shareholders (registered or unregistered) are eligible to participate in this offer at any time prior to the closure of tendering period.

The Acquirers accept full responsibility for the information contained in this Pre Offer Advertisement and also shall be jointly or severally responsible for the fulfillment of the obligations under the Offer and as laid down in SEBI (SAST) Regulations, 2011 and subsequent amendments thereto.

This Pre Issue Advertisement will also be available on SEBI's website at www.sebi.gov.in.

Issued by Manager to the Offer on behalf of the Acquirers

D & A FINANCIAL SERVICES (P) LIMITED

13, Community Centre, East of Kailash, New Delhi - 110065.

Tel: 011-41326121/40167038

E-mail: investors@dnafinnserv.com

Contact Person: Mr. Priyaranjan

Date : 03.08.2022

Place: New Delhi



MEDICAMEN BIOTECH LTD.
(CIN: L74899DL1993PLC059694)
Regd. Office: 1506, Chiranjiv Tower, 43, Nehru Place, New Delhi-110019
Website: www.medicamen.com, Email id: cs@medicamen.com

PUBLIC NOTICE FOR LOSS OF SHARE CERTIFICATES

Notice is hereby given that the following share certificates issued by the Company have been reported to be lost/ misplaced and the legal heirs/ successors of the registered holders therefore have requested the Company for issuance of Duplicate Share Certificate(s) in lieu thereof.

Name of the Registered Holder	Folio No	Certificate No	Distinctive No	No. of Shares
R P CHECHANI	0000397	14153 14154	1415201-1415300 1415301-1415400	100 100

Any person(s) who has/ have any claim(s) in respect of the aforementioned certificates should lodge the claim in writing with the Company within 15 days of the publication of the notice. The Company will not thereafter be liable to entertain any claim in respect of the said Share Certificate(s) and shall proceed to issue the duplicate Share Certificate(s) in accordance with the Companies (Issue of Share Certificate) Rules, 1960.

For Medicamen Biotech Limited Sd/- Parul Choudhary Company Secretary

Place: New Delhi Date: 03.08.2022

लाइट माइक्रोकॉफायनान्स प्राइवेट लिमिटेड में नाफित निदेशकों को नियुक्ति के लिए सार्वजनिक सूचना

[CIN : U67120DL1994PTC216746]

पृष्ठभूमि: मेरमॉ नाइट माइक्रोकॉफायनान्स प्राइवेट लिमिटेड ("कम्पनी") कम्पनीज एक्ट 1956 के प्रावधानों के अंतर्गत समाहित एग प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी है और पंजीकरण प्रमाणपत्र (फॉर्मन नंबर: B-14.03244) दिनांक: 27 मई, 2014 प्राप्त करने डिपॉजिट प्राप्त मा करनेवाली नोन-बैंकिंग फाइनेयल कम्पनी-माइक्रोकॉफायनान्स इन्स्टीट्यूशन (एनबीएफसी - एमएफआई) के तौर पर रजिस्ट्रार बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम, 1934 की सेक्शन 45 आईए अंतर्गत रजिस्ट्रार बैंक ऑफ इंडिया ("अरबीआई") के मात पंजीकृत हुई कम्पनी है। कम्पनी की रजिस्टर्ड ऑफिस 308, अग्रवाला टावर, प्लोट नं. 2, मेक्टर-5, ब्राम्हा, नई दिल्ली-11075 और कोर्पोरेट ऑफिस 310, निवेशक विकास पार्क, कोर्पोरेट रोड, प्रहलादनगर, अहमदाबाद -380015 पर स्थित है। नोन-बैंक बिचर: लाइट माइक्रोकॉफायनान्स प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी में मौजूदा फॉर्मनगरीनी कनवर्जन परफॉर्म अपेक्ष [मिनिमम] [सीरीज A और A1] आहर्कों के नामित निदेशकों को नीचे उल्लिखित नामों के अनुसार नियुक्त करने का प्रस्ताव करती है।

क्रमांक	सिद्धिपत्र धारकों के नाम	नामित निदेशकों के नाम
---------	--------------------------	-----------------------

1	NMI Fund IV KS	Mr. Thomas Klungsøyr
---	----------------	----------------------

2	agRIIF Coöperatief U.A.	Mr. Aditya Bhandari
---	-------------------------	---------------------

इस सार्वजनिक सूचना का उद्देश्य भारतीय रजिस्ट्रार बैंक के अनुमोदन पर दिनांक 22.07.2022 के अनुसार कम्पनी के बोर्ड में प्रस्तावित परिवर्तनों के संबंध में जनता को सूचना प्रदान करना है। इस संबंध में किसी मंत्रीकर्मों और/या आभितियों को इस सूचना की दिनांक में 30 दिनों के भीतर उम्मीदी कोर्पोरेट ऑफिस या Compliance@lightmicrofinance.com पर कम्पनी को संबोधित किया जा सकता है।

दिनांक: 02.08.2022 स्थान: दिल्ली

बारीकतः: इन्नाग्र-लाइट माइक्रोकॉफायनान्स प्राइवेट लिमिटेड

सार्वजनिक सूचना

भारतीय विमान और चोपन कक्षा बोर्ड (संविधान परिकल्पना) विनियम, 2017 का विनियम 14)

सावि रिट्रन प्राइवेट लिमिटेड के स्टैकहोल्डर्स के ध्यानार्थ

सावि रिट्रन प्राइवेट लिमिटेड

1. कोर्पोरेट व्यक्ति का नाम

2. कोर्पोरेट व्यक्ति के नाम की तिथि

3. प्राधिकरण जिसके अधीन कोर्पोरेट व्यक्ति नमि / पंजीकृत है

4. कोर्पोरेट पहचान संख्या

5. कोर्पोरेट व्यक्ति के पंजीकृत कार्यालय एवं प्रधान कार्यालय (सर्वि कोड